



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]  
No. 70]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1978/फाल्गुन 13, 1899  
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1978/PHALGUNA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1978

सां०कां०नि० 160(अ) —उ० वि० वि० अ० 30/2/78 —औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1977 का एक प्रारूप, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सां० कां० नि० 593 (अ) उ० वि० वि० अ० 30/2/77, तारीख 25 अगस्त, 1977 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 25 अगस्त, 1977 के पृष्ठ 1736 से 1747 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें 15 अक्टूबर, 1977 तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे, जिनके उसमें प्रभावित होने की सम्भावना थी।

और उक्त राजपत्र 9 गिनम्बर, 1977 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था, और केन्द्रीय सरकार ने प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1978 है।
2. औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 में प्रारूप छ के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा अर्थात् —

प्रारूप छ

(नियम 19 देखें)

(औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 19 (अध्यापनरीक्षित) के अधीन विहित)

(औद्योगिक उपक्रमों के स्थापन में, जून/दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्षवर्ष की प्रगति रिपोर्ट)।

(केवल उस क्षमता के लिए जो अभी तक प्रवर्तन में नहीं है)

(कृपया प्ररूप भरने के पूर्व अन्त में विद्या गया टिप्पण पढ़ें)

1. औद्योगिक उपक्रम का नाम और पता—

राज्य—

जिला—

2. कारखाने का अवस्थान

--	--	--	--	--	--

क्या पिछड़े जिले/क्षेत्र में है

हाँ

नहीं

--

--

3. उपक्रम को जारी किए गए रजिस्ट्रार/प्रमाणपत्र/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र की संख्या और तारीख

सं०— मास—

तारीख— वर्ष—

4. उपक्रम का प्रवर्ग

(i) क्या ए० प्र० व्या० व्यव० अधिनियम 1969 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है

हाँ

नहीं

--

--

(ii) यदि हाँ, तो कृपया यह विनिर्दिष्ट करें—

(क) क्या रजिस्ट्रीकरण धारा— 20 (क) (i)/20 (क) (ii) 20

(ख) (i)/20 (ख) (ii)— के अधीन है।

(ख) कृपया समूह का नाम लिखें—

(iii) (क) क्या यह भारतीय कम्पनी है जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी हित है ?

हाँ

नहीं

--

--

यदि हाँ, तो विदेशी साम्था का— प्रतिशत  
प्रतिशत लिखें

--

--

--

(ख) क्या किसी विदेशी कम्पनी की शाखा है

हाँ

नहीं

--

--

(iv) क्या पब्लिक सेक्टर उपक्रम है

यदि हाँ तो यह विनिर्दिष्ट करें कि यह इसमें से क्या है ?

हाँ

नहीं

--

--

केन्द्रीय सरकार

केन्द्रीय सरकार निगम

राज्य सरकार

राज्य सरकार निगम

--

--

--

--

- (v) क्या यह समुक्त सेक्टर उपक्रम है ?  
यदि हाँ तो विनिर्दिष्ट करें कि यह इनमे से क्या है ?

हाँ

नहीं



(क)

केन्द्रीय सरकार

केन्द्रीय सरकार निगम

राज्य सरकार

राज्य सरकार निगम





- (ख) प्राइवेट पक्षकार/पक्षकारों के नाम जिनके 25 प्रतिशत या अधिक साम्बा अंश (शेयर) है—

- (ग) ..... प्रतिशत शेयर धारित

पब्लिक

प्राइवेट



- (vi) क्या सहकारी सोसाइटी है ?

हाँ

नहीं



#### 6. अनुसूक्ति का प्रवर्ग

एन० यू०

एन० ए०

एस० ई०

एन० ए०/एस० ई०

सी० ओ० बी०






शिफ्टिंग

कोई अन्य,

विनिर्दिष्ट करें



6. यदि किसी विस्तार की अनुज्ञा दी गई है तब

तारीख

- (i) विस्तार पत्र की मंजूरी—

- (ii) जिस तारीख तक विस्तार की मंजूरी दी गई हो वह तारीख—

7. (क) उत्पाद (दो) का (के) नाम

अमता

इकाई

पारो (शफ्ट)

(i)



कोड




(ii)

कोड

(iii) .....

--	--	--	--	--

--

कोड

--	--	--	--

(iv) .....

--	--	--	--	--

--

कोड

--	--	--	--

(v) .....

--	--	--	--	--

--

कोड

--	--	--	--	--	--

(ख) ह० वि० वि० अधिनियम अनुसूची सं० .....

(ग) क्या 1977 की औद्योगिक अनुसूची नीति 1973 के उपाबंध 1 में सम्मिलित है

हां

नहीं

--

--

यदि हां तो उपाबंध की सब संख्या लिखें .....

8. क्या कोई निर्यात बाध्यता अस्तवैलित है ?

हां

नहीं

--

--

यदि हां, तो प्रतिशत (वर्ष बार) विनिर्दिष्ट करें

वर्ष	.....	प्रतिशत
वर्ष	.....	प्रतिशत
वर्ष	.....	प्रतिशत
वर्ष	.....	प्रतिशत
वर्ष	.....	प्रतिशत
वर्ष	.....	प्रतिशत

9. प्रगति के प्रक्रम

(i) क्या भूमि अजित की गई ?

हां

नहीं

भूमि पर विनिर्माण  
(लाख रु०)

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

(क) कारखाने के संनिर्माण पर प्राक्कलित व्यय  
(लाख रुपए)

--	--	--	--

(ख) आज की तारीख तक कारखाने के संनिर्माण पर व्यय  
(लाख रुपए)

--	--	--	--

(ii) विदेशी सहयोग

आवेदन की अपेक्षा  
नहीं है

(1)

आवेदन नहीं  
किया गया

(2)

आवेदन किया  
गया

(3)

अनुमोदित

(4)

नामजूर

(5)

--	--	--	--	--

(क) यदि अनुमोदित किया गया, तो क्या एफ०सी० करार अमिलख में रखा गया

हां

नहीं

--	--

(ii) सी० जी०

आवेदन की अपेक्षा  
नहीं है

(1)

आवेदन नहीं  
किया गया

(2)

आवेदन किया  
गया

(3)

अनुमोदित

(4)

नामजूर

(5)

--	--	--	--	--

यदि अनुमोदित हो गया है तो क्या—

(क) एफ० ई० उधार प्राप्त हो गया है

हां

नहीं

--

--

(ख) निर्यात बाधयता/बन्धपत्र/परिवर्धन को निष्पादित किया जा चुका है (यदि अपेक्षित हो तो)

हां

नहीं

--

--

(ग) आयात अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

हां

नहीं

--

--

(iv) कच्ची सामग्री

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

--	--	--	--	--

(क) यदि अनुमोदित की जा चुकी है तो क्या आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गई है

हां

नहीं

--

--

(v) कर्मचारियों के नियोजन में हुई प्रगति—

(क) प्रबन्ध सशर्धी

वर्तमान

अतिरिक्त कर्मचारी जिनकी जरूरत है

--	--	--	--

--	--	--	--

(ख) पर्यवेक्षकीय

तकनीकी

--	--	--	--

--	--	--	--

गैर तकनीकी

--	--	--	--

--	--	--	--

(ग) निर्वाकीय

--	--	--	--

--	--	--	--

	वर्तमान	अतिरिक्त कर्मचारी जिन की जरूरत है -
(घ) कुशल श्रमिक	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ङ) अर्धकुशल श्रमिक	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(च) अकुशल श्रमिक	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(छ) विदेशी तकनीशियन	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ज) कोई अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 10 कार्यान्वयन में अनुभव की गई कठिनाइयाँ—

## (i) वित्तीय साधनों की उपलब्धता:

	अपेक्षित पजी/ साम्या लाख रु०	प्रतिशत समावृत्त/ संगृहीत	अपेक्षित उधार लाख रु०	प्रतिशत मंजूर
(क) आन्तरिक	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ख) विदेशी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## (ii) संनिर्माण सामग्री की उपलब्धता

## (क) इस्पात (मीटरी टन)

## (ख) सीमेन्ट (मीटरी टन)

## (iii) सामग्री की उपलब्धता

क. मुख्य देशी कच्ची सामग्री (प्रत्येक) का वर्णन

वार्षिक क्षमता पूरी करने के लिए  
अपेक्षित मात्रा  
(उपयोग की शत प्रतिशत पर आधारित)

प्राप्त करने में हुई कठिनाई किस प्रकार की है  
कभी परिबर्हन वित्तीय अन्य  
(विनिर्दिष्ट करें)

(क) कोड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ख) कोड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ग) कोड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## ख. आयातित कच्ची सामग्री (प्रत्येक) का वर्णन

(क) कोड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ख) काड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ग) कोड	<input type="text"/>	ए/सी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## (iv) सयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता

(क) आयातित अपेक्षाएँ सी आई एफ	मूल्य लाख रुपए	प्रतिपात आदेश किया गया	प्रतिपात प्राप्त	अन्तिम प्रतिशेष के कब प्राप्त होने की आशा है वर्ष मास
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

प्राप्त करने में हुई कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैं	परिवान में विलम्ब	नौवहन/परिवहन	उधार व्यवस्था	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ख) वेणी अपेक्षाएँ	मूल्य लाख रुपए	प्रतिपात आदेश दिया गया	प्रतिपात प्राप्त	अन्तिम प्रतिशेष के कब प्राप्त होने की आशा है वर्ष मास
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

प्राप्त करने में हुई कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैं	परिदान में विलम्ब	परिवहन	वित्तीय	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## (v) विद्युत की उपलब्धता के बी ए रेटिंग के डब्ल्यू एन

(क) वार्षिक अपेक्षा	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(ख) वार्षिक उपलब्धता	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(ग) उपलब्धता से हुई कठिनाइयाँ किस प्रकार की हैं	अपर्याप्त परिवार	पारेषण या सर्व-स्टेशन सम्बन्धी कठिनाई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## (vi) ईंधन की उपलब्धता (विनिर्दिष्ट करें—कोयला/कोक/भट्टी तेल/एल डी० तेल/एन एस डी/तेल/कोई अन्य मोटरी टन

(क) वार्षिक अपेक्षा	<input type="text"/>
(ख) वार्षिक उपलब्धता	<input type="text"/>

(ग) उपलब्धता से हुई कठिनाई किस प्रकार की हैं	कम परिवार	परिवहन कठिनाई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 11. प्रदूषण नियंत्रण

प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम

जल		वायु		मृदा	
(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)

प्राप्त/प्राप्तित भवितव्य

## 12. इन कठिनाइयों पर विचार करते हुए, जाल होने की सम्भाव्य तारीख

वर्ष		तिमाह			
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)

## 13. शीघ्र जाल करने के लिए सरकार से जारी गई सहायता की प्रकृति :

विदेशी सहयोग	आयातित सी०जी०	देशी संयंत्र और मशीनरी	कच्ची सामग्री	देशी उधार
विदेशी मुद्रा	विद्युत	ईंधन	परिवहन/वैगन	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर .....

टिप्पण :-

- (1) कृपया सम्बन्धित घेरों में  $\sqrt{\quad}$  का चिह्न लगाएं।
- (2) कोइलों के घेरों को खाली छोड़ दें।
- (3) माला के अर्क विहित घेरों में भरे जा सकते हैं।
- (4) मूल्य के अर्क दो वषरमलय स्थानों तक लाख रुपयों में दिए जा सकते हैं।

[सं० 14(1)/एल० पी०/77]

पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
(Department of Industrial Development)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th March, 1978

**G.S.R. 160(E)—IDRA/30/2/78 :** Whereas a draft of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1977, was published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), at pages 1725 to 1735 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 25th August, 1977 with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. G.S.R. 593(E)/IDRA 30/2/77, dated the 25th August, 1977 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby by the 15th October, 1977 ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 9th September, 1977 ;

And whereas the suggestions received have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, namely :—

1. These rules may be called the Registration and Licensing of Industrial Undertakings (Amendment) Rules, 1978.



2. In the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952 for Form G, the following form shall be substituted, namely :—

**FORM G**  
(See Rule 19)

[PRESCRIBED UNDER RULE 19 OF THE REGISTRATION AND LICENSING OF INDUSTRIAL UNDERTAKINGS RULES, 1952] (as revised).

Report on the Progress made in the Establishment of Industrial Undertakings for the half year ending on June/December.

(Only for capacities not yet in operation)

(Please read notes at the end of the form before filling up)

1. Name & Address of the Industrial Undertaking .....

2. Location of Factory STATE .....  
DISTRICT .....

Code 

--	--	--	--	--	--	--	--

Whether in a backward District/Area

Yes

No







3. No. and date of Registration/Certificate/Licence/Permission No .....  
issued to the Undertaking. Date ..... Year ..... Month .....

4. Category of Undertaking

Yes

No

(i) Whether registered under MRTP Act, 1969







(ii) If yes, please specify :

(a) Whether under Section

20(a)(i)/20(a)(ii) .....

20(b)(i)/20(b)(ii) .....

(b) Please state the name of the Group .....

(iii) (a) Whether an Indian Company with non-resident interest exceeding 40%

Yes

No







%

If so, please state the percentage of foreign equity

--	--	--	--

Yes

No

(b) Whether a branch of a foreign company ?







Yes

No

(iv) Whether a Public Sector Undertaking ?







If 'Yes' please specify whether it is :

Central Govt.

Central Government Corporation

State Govt.

State Govt. Corpn.















(v) Whether a Joint Sector Undertaking ?

Yes

No

If 'Yes' please specify whether it is with

(a) Central Government

Central Govt. Corporation

State Govt.

State Govt. Corpn.

☐
☐
☐
☐

(b) Name(s) of the Private Party/Parties holding more than 25% .....  
or more equity shares. ....

Public

Private

(c) % Shares held

☐
☐

Yes

No

(vi) Whether a Co-operative Society ?

☐
☐

5. Category of Licence :

NU

NA

SE

NA/SE

COB

SHIFTING

Any other, please specify

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

6. If any extension has been granted, then,

(i) Letter of Extension No ..... Date .....

(ii) Date upto which extension granted

7. (a) Name(s) of product(s)

Capacity

Unit

Shifts

(i) .....

☐
☐

Code

☐
☐

(ii) .....

☐
☐

Code

☐
☐

(iii) .....

☐
☐

Code

☐
☐

(iv) .....

☐
☐

Code

☐

(v) .....

Code

(b) I.D.R. Act Schedule No .....

Yes

No

(c) Whether included in the Appendix I to Industrial Licensing Policy, 1973.

If yes, please state item No. of the Appendix .....

Yes

No

g. Whether any export obligations involved ?

If 'Yes' please specify the percentage (Year-wise).

Year .....

Year .....

Year .....

Year .....

Year .....

Year .....

Year .....

9. Stages of Progress

Yes

No

Investment on land (Rs. lakh)

(i) Whether land acquired .

(a) Estimated expenditure on factory Construction : (Rs. Lakh)

(b) Expenditure on factory construction incurred to date (Rs. Lakhs)

Not required to apply  
(1)Not applied  
(2)Applied  
(3)Approved  
(4)Rejected  
(5)

(ii) Foreign Collaboration

(a) If approved,

Yes

No

Whether, FC agreement taken on record :



(d) Skilled labour

--	--	--	--

--	--	--	--

(e) Semi-skilled labour

--	--	--	--

--	--	--	--

(f) Unskilled

--	--	--	--

--	--	--	--

(g) Foreign technician

--	--	--	--

--	--	--	--

(h) Any other, please specify.

--	--	--	--

--	--	--	--

## 10. Difficulties experienced in implementation

(i) Financial resources availability

	Capital/Equity required (Rs. lakhs)	% paid up/raised	Borrowing required (Rs. lakhs)	% sanctioned																
(a) Internal	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
(b) Foreign Investment	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				

	Qty. Reqd.					% arranged for				
(ii) Construction Material Availability	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
(a) Steel (Tonnes)										
(b) Cement (Tonnes)	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

(iii) Raw Materials Availability

Qty. required to achieve annual Capacity  
(based on 100% capacity utilisation)

Nature of difficulty in procurement

(A) Description of main indigenous  
Raw Materials (each)

Scarce    Transport    Financial    Other

(a) Code	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									A/C	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>		
(b) Code	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									A/C	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table><tr><td></td><td></td></tr></table>		

(c) Code         A/C

(B) Description of imported Raw Materials (each)

(a) Code         A/C

(b) Code         A/C

(c) Code         A/C

(iv) Plant & Machinery Availability

When last of the balance  
expected to be acquired

(a) Imported Requirements c.e.f.

Value Rs. lakhs

% ordered

% acquired

Year

Month

Nature of difficulty in  
procurement

Long delivery

Shipping/Transport

Credit  
arrangement

Other specify

Value Rs. lakhs

% ordered

% acquired

When last of the balance  
expected to be acquired

(b) Indigenous Requirement

Year

Month

Nature of difficulty in  
procurement

Long delivery

Transport

Financial

Other specify

(v) Power Availability

KVA Rating

KWH

(a) Annual Requirement

(b) Annual Availability

Inadequate supply

Transmission of  
sub-station difficulty

Other (specify)

(c) Nature of difficulty in  
availability

(vi) Fuel Availability

(Please specify : Coal/Coke/Furnace Oil/LD Oil/RSD Oil/Any of her .....

tonnes

(a) Annual Requirement

Tonnes

(b) Annual Availability

--	--	--	--	--

(c) Nature of difficulty in availability

Short Supply

Transport difficulty

Others (specify)

--

--

--

11. Pollution Control Steps taken to prevent pollution.

Approvals obtained (1)/Applied for (2)

Water

(1)

(2)

--

--

Air

(1)

(2)

--

--

Soil

(1)

(2)

--

--

Year

(1)

(2)

Quarter

(3)

(4)

12. Considering these difficulties, likely date of commissioning

--	--

--	--	--	--

13. Nature of assistance needed from the Government for early commissioning :

Foreign Collaboration

--

CG Imported

--

Indigenous Plant &amp; Machinery

--

Raw Material

--

Indigenous borrowing

--

Foreign Exchange

--

Power

--

Fuel

--

Transport/Wagons

--

Others please specify

--

Additional information, if any .....

Place .....

Signature .....

Date .....

Note :—

1. Kindly place a tick mark in the appropriate boxes.
2. Boxes for codes may be left blank.
3. Quantity figures may be filled in the prescribed boxes.
4. Value figures may be given in Rs. lakhs upto 2 decimal places.

[No. 14(1)/LP/77]  
P.C. NAYAK, Jt. Secy.

